



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 2001/फाल्गुन 5, 1922
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 2001/PHALGUNA 5, 1922

इस भाग में बिम्ब पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ. अ. 37.—प्रतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री सुखपाल सिंह, ग्राम व पो. आ.—लाम्बी, पंजाब, जिन्होंने फरवरी, 1998 में हुए पंजाब राज्य में लोक सभा के 12-फरीदकोट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से माध्यम निर्वाचन लड़ा था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्विनिर्दिष्ट गण नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या औचित्य नहीं है ;

अतः, अतः, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में इसके द्वारा श्री सुखपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कानाचढ़ि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. 76/पंजाब-लो. सं./98(5)]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 37.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that Shri Sukhpal Singh, Vill. & P.O. Lambi, Punjab who contested the General

Election to the Lok Sabha, 1998 in the State of Punjab from 12-Faridkot Parliamentary Constituency held in February, 1998 has failed to lodge the account of his election expenses in the manner, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure to respond to the notice and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares said Shri Sukhpal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/PB-HP/98(5)]

By order,

K. R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ. अ. 38.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में

यथा विनिर्दिष्ट सितम्बर, 1999 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदुक्त विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनियम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथावर्णित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है ।

सारणी

| क्र. सं. निर्वाचन का विवरण | लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरर्हता का कारण |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1999 | 2—दक्षिणी दिल्ली | श्रीमती जेनिस दरबारी, एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे । |
| 2. —वही— | —वही— | श्री जोगेन्द्र सिंह, जे-3/195, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27 | —वही— |
| 3. —वही— | —वही— | मो. शरीफ, 300/7, ओखला गांव जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 | —वही— |

[सं. 76/दिल्ली-लो. सं./99 (4)]

आदेश से,
के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 38.—Whereas, the Election Commission is thus satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People held from NCT of Delhi in September, 1999 as specified in column (2), held from the constituencies specified in column (3) against their names have failed to lodge an account of their election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

TABLE

| Sl. No. | Particulars of elections | No. & Name of constituency | Name & Address contesting candidate | Reasons for disqualification |
|---------|---|----------------------------|--|---|
| 1. | General election to House of the People, 1999 | 2-South Delhi | Smt. Janis Darbari, S-528, Greater Kailash, Part-I, New Delhi | Failed to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | -do- | Shri Joginder Singh, J-3/195, Rajouri Garden, New Delhi-110027 | -do- |
| 3. | -do- | -do- | Mohd. Sarif, 300/7, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi-110025 | -do- |

[No. 76/DL-HP/99 (4)]

By Order,

K.R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.अ. 39.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट गण नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्याख्यान नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्गृहीत किया जाता है।

| क्र.सं. निर्वाचन का विवरण | विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरर्हता का कारण |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य- क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 1998 | 50—घोंडा | श्री-अवनी कुमार तिवारी, मुन्सी राम लेन, डा. मुकजी नगर, दिल्ली-110009 | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2. —वही— | —वही— | श्री पूरन सिंह सानवान, एक्स. 199, गली नं. 11, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53 | —वही— |
| 3. —वही— | —वही— | श्री मनोज के. : 158 गौतम विहार, दिल्ली-53 | —वही— |
| 4. —वही— | 7—कालकाजी | श्री निर्मल सिंह, 61, ग्राम नगर, दिल्ली। | —वही— |

[सं. 76/दिल्ली-वि. स./99(10)]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 39.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly held from National Capital Territory of Delhi in November, 1998 as specified in column (2) and held from constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission of India, after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

| Sl. No. | Particulars of the election | Particulars of the assembly Constituency | Name & Address of the contestant | Reason for disqualification |
|---------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 1998 | 50-Ghonda | Sh. Awani Kumar Tiwari, Munsi Ram Lane, Dr. Mukherji Nagar Delhi-9. | Failed to lodge any accounts of election expenses at all. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------|---|--|
| 2. | General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi 1998 | 50 Ghonda | Shri Puran Singh Sajwan, X-199, Gali No.-11, Brahampuri, Delhi-53 | Failed to lodge any accounts of Election expenses at all |
| 3. | -do- | -do- | Shri Manoj, K-158, Gautam Vihar, Delhi-53. | -do- |
| 4. | -do- | 07-Kalkaji | Shri Nirmal Singh, 61, Sham Nagar, Delhi | -do- |

[No. 76/DL-LA/99 (10)]

By Order,

K.R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.प्र. 40 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दृशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और इस प्रकार निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

| क्र.सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन-क्षेत्र की क्र. सं. और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरहता का कारण |
|---------|--|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2000 | 58—चुराचन्दपुर (अ.ज.जा.) | श्री खुम्राल्खान्यांग ताउलनुग्राम, बी.पी.ओ.-लिंगसिफाई, चुराचन्दपुर, मणिपुर। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2. | —वही— | 59—सैकोर | श्री लाल्खोनांग हांगशिंग वेथेल, पो. श्री. चुराचन्दपुर, मणिपुर। | —वही— |
| 3. | —वही— | —वही— | श्री ओनजांग हाओ क्पि लैलामपट ग्राम बी.पी. ओ. सैटन, चुराचन्दपुर, मणिपुर। | —वही— |

[सं. 76/मणि-वि.स./2000]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 40.—Whereas, the Election Commission is thus satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the election specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder as shown in column (5) of the said Table: and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

TABLE

| Sl. No. | Particulars of elections | No. & Name of AC | Name & Address of contesting candidate | Reason for disqualification |
|---------|--|---|---|---|
| 1. | General election to Legislative Assembly 2000. | 58-Churachandpur (ST) Assembly Constituency | Shri Khualkhanthang, Tualnuam, BPO-Lingsiphai, Churachandpur, Manipur | Failed to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | 59-Saikot (ST) Assembly Constituency | Shri Lalkhongam Hangshing, Bethel, P.O.-Churachandpur, Manipur | -do- |
| 3. | -do- | -do- | Shri Onjang Haokip, Lailampat Village, BPO-Saiton, Churachandpur, Manipur | -do- |

[No. 76/MR-LA/2000]

By Order,

K.R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.अ. 41 :—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1999 जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

| क्र.सं. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरहिता का कारण और पता |
|---------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हुलियुरदुर्गा | श्री ए एस व्यकुन्तमूर्ति सुपुत्र सिगरैय्या अनतहल्ली हुलियुरदुर्गा होंबली कुनिगल टाउन, कर्नाटक | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|---|---|
| 2. | 86--भारथीनगर | श्री वी री पुगाबेन्दी नं. 358, 12 वीं फ़ाल, सेकंड ब्लॉक, जयानगर बंगलौर | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे |
| 3. | -वही- | श्री पी बालू नं. 68 ज्वेलर्स स्ट्रीट बंगलौर-1 | -वही- |
| 4. | 101--नागमंगला | श्री वी वाई धरनेन्द्र बाबू सुपुत्र बी एस बासुदेव जैन बेलूर, नागमंगला तालुक, कर्नाटक | -वही- |
| 5. | -वही- | श्री कृष्णगौडा सुपुत्र-बोरगोवडा बीबनहल्ली बिन्दीगनखिले होबली नागमंगला तालुक कर्नाटक | -वही- |
| 6. | -वही- | श्री एम डी कृष्णगौडा मचानायाकानाहल्ली साथेनहल्ली पोस्ट बिन्दीगनखिले होबली नागमंगला तालुक कर्नाटक | -वही- |
| 7. | 101--नागमंगला | श्री टी के कैम्पेगौडा सुपुत्र-कैम्पेगौडा, तुळबेनाहल्ली नागमंगला तालुक कर्नाटक | -वही- |
| 8. | -वही- | श्री जयरामेगौडा सुपुत्र हाळबेगौडा बिन्दीगनखिले नागमंगला तालुक कर्नाटक | -वही- |
| 9. | -वही- | श्री बी आर नारायणस्वामी सुपुत्र वाई रामेगौडा ए नारायणपुरा दूरावाणीनगर, बंगलौर कर्नाटक | -वही- |
| 10. | -वही- | श्री परमेश सुपुत्र नागाराजू रामचन्द्र अग्रहरा | -वही- |
| 11. | -वही- | श्री शिवराम सुपुत्र गौडेगौडा होभावारा गांव बिन्दीगनखिले होबली नागमंगला तालुक कर्नाटक | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|---|---|
| 12. 105-माण्ड्या | श्री अरिफाणा मुपुत्र स्वर्गीय दाउद खान, हालाहल्ली, मुस्लिम ब्लाक थर्ड फ़ास माण्ड्या, कर्नाटक | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । | |
| 13. 108-पांडवपुर | श्री पी जयदेव पट्टासोमनाहल्ली गांव पांडवपुर तालुक कर्नाटक | -वही- | |
| 14. 152-श्रीगेरी | श्री के पी रघुपति केरेमाने, अगालागंडी कोप्पा तालुक कर्नाटक | -वही- | |

[सं. 76/कर्ना-वि.सं./99]

आदेश से,
बाबू राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 41.—Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidates specified in column (3) of the Table below of the General Election to the Legislative Assembly, 1999 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge his/her account of election expenses at all/in the manner required by law as shown in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of States for a period of 3 years from the date of this order.

| Sl. No. | No. & Name of the Assembly Constituency | Name of the contesting candidates | Reason for disqualification |
|---------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 59-Huliyurdurga | Shri A.S. Vykuntamurthy, S/o Singraiah, Anathahalli, Huliyurdurga Hobli, Kunigal Town, Karnataka | Failed to lodge account of election expenses at all. |
| 2. | 86-Bharathinagar | Shri V.P. Pugazhendi No. 358, 12th Cross, 2nd Block, Jayanagar, Bangalore-1. | -do- |
| 3. | -do- | Shri P. Balu No. 68, Jewellers St, Bangalore-1. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------|--|---|
| 4. | 101-Nagamangala | Shri B.Y. Dharanendrababu, S/o B.S. Vasudeva Jain, Belur, Nagamangala taluk, Karnataka | Failed to lodge account of election expenses at all. |
| 5. | -do- | Shri Krishnegowda, S/o Boregowda, Beechanahalli, Bindiganavile Hoble, Nagamangala taluk, Karnataka | -do- |
| 6. | -do- | Shri M.D. Krishnegowda, Machanayakanahalli, Sathenahalli Post, Bindiganavile Hobli Nagamangala Taluk, Karnataka | -do- |
| 7. | -do- | Shri T.K. Kempegowda, S/o Kempegowda Thurubenahalli, Nagamangala Taluk, Karnataka | -do- |
| 8. | -do- | Shri Jayaramegowda, S/o Haruvegowda, Bindiganavile, Nagamangala Taluk, Karnataka | -do- |
| 9. | -do- | Shri B.R. Narayanaswamy S/o Y. Ramegowda, A. Narayanapura, Dooravaninagar, Bangalore, Karnataka | -do- |
| 10. | -do- | Shri Paramesh, S/o Nagaraju, Ramachandra Agarhara, Nagamangala Taluk Karnataka | -do- |
| 11. | -do- | Shri Shivarama S/o Gowdegowda, Honnava Village, Vindiganavile Hobli, Nagamangala Taluk, Karnataka | -do- |
| 12. | 105-Mandya | Shri Arispasha, S/o Late Davoodhkhana, Halahalli Muslim Block 3rd Cross, Mandya, Karnataka | -do- |
| 13. | 108-Pandavapura | Shri P. Jayadeva, Pattasomanahalli Village, Pandavapura Tq., Karnataka | -do- |
| 14. | 152-Sringeri | Shri K.P. Raghupathi, Keremane, Agalagandi Koppa Taluk, Karnataka | -do- |

[No. 76/KT-LA/99]

By Order,
BABU RAM, Secy.

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2001

आ. अ. 42.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत निर्वाचन आयोग पंजाब सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री विजय कैन, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री गुरजीत सिंह चीमा, आई. ए. एस. (आर० आर० 72) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री गुरजीत सिंह चीमा, आई. ए. एस. पंजाब सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देगे या धारण करना समाप्त कर देगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री गुरजीत सिंह चीमा, आई. ए. एस. मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब के रूप में कार्य करते हुए पंजाब सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनकी राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/पंजाब/2001-का. प्रशासन]

आदेश से,

ललित मोहन, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th February, 2001

O.N. 42.—In exercise of the power conferred by Sub-section (I) Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Punjab hereby nominates Shri Gurjit Singh Cheema, IAS (RR-72), as the Chief Electoral Officer for the State of Punjab with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Vijay Kain, IAS.

2. Shri Gurjit Singh Cheema shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Punjab, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Gurjit Singh Cheema while functioning as the Chief Electoral Officer, Punjab shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Punjab except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/PB/2001-P. Admn.]

By Order,

LALIT MOHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2001

आ.अ. 43.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री भीम सैन, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री पी. सी. कपूर, आई. ए. एस. (एच. पी.—82), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री पी. सी. कपूर हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देगे या धारण करना समाप्त कर देगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री पी. सी. कपूर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनकी राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/हि.प्र./2001-का. प्रशासन]

आदेश से,

ललित मोहन, अवसर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2001

O.N. 43.—In exercise of the power conferred by Sub-section (I) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Himachal Pradesh hereby nominates Shri P. C. Kapoor, IAS (HP:82), as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Bhim Sen, IAS.

2. Shri P. C. Kapoor shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Himachal Pradesh which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri P. C. Kapoor while functioning as the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Himachal Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/HP/2001-P. Admn.]

By Order,

LALIT MOHAN, Under Secy.